



## प्रेस नोट जनपद सीतापुर

### शिक्षिका के हत्याभियुक्त पर रा.सु.का (N.S.A.) के अन्तर्गत कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह के द्वारा जनपद में घटित गम्भीर अपराधों में कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। जिस क्रम में थाना मानपुर पुलिस द्वारा स्कूल के अंदर शिक्षिका की हत्या की घटना कारित कर लोक व्यवस्था प्रभावित करने वाले अभियुक्त अमित कुमार कौशल पुत्र मिश्रीलाल कौशल नि० मोहल्ला संतनगर थाना सिधौली जनपद सीतापुर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A.) 1980 की कार्यवाही की गयी है।

दिनांक 21.11.2020 को थाना मानपुर क्षेत्र में अभियुक्त अमित कुमार कौशल उपरोक्त द्वारा स्कूल के अंदर शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस संबंध में थाना मानपुर पर मु०अ०सं० 369/20 धारा 302 भा०द०वि० बनाम अमित उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त अमित उपरोक्त को गिरफ्तार कर के दिनांक 22.11.2020 को जेल भेजा गया था। शिक्षिका की निर्ममतापूर्वक की गयी हत्या की सूचना से जनमानस में काफी आक्रोश एवं भय व्याप्त हो गया था, जिससे लोक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई। पर्याप्त पुलिस बल लगाकर स्थिति को सामान्य किया गया था तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समझाने बुझाने एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी होने के बाद लोगो में विश्वास कायम हो सका। पंजीकृत अभियोग की विवेचना पूर्ण करते हुये दिनांक 16.12.2020 को अन्तर्गत धारा 302 भा०द०वि० में आरोप पत्र A-350/20 में माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त वर्तमान में जिला कारागार सीतापुर में बंद है। अभियुक्त जमानत पर बाहर आने हेतु प्रयासरत था एवम् पुनः अपराध घटित कर सकता था। **N.S.A. अधिरोपित किये जाने के फलस्वरूप अभियुक्त को अग्रिम एक वर्ष तक के लिए निरुद्ध किये जाने हेतु निरुद्धि आदेश आज दिनांक 21.02.2021 को जेल में तामील कराया गया।**

क्षेत्र की लोक व्यवस्था के अनुरक्षण हेतु व्यापक लोकहित में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाये गये रोकथाम अपराध व अपराधियों पर लगाए जाने अंकुश के तहत अभियुक्त अमित कुमार कौशल उपरोक्त के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A.) की कार्यवाही की गयी है। कार्यवाही से जनमानस में पुलिस के प्रति विश्वास एवं अपराधियों के मध्य कड़ा संदेश प्रेषित हुआ है।

नाम/पता अभियुक्त- अमित कुमार कौशल पुत्र मिश्रीलाल नि० मोहल्ला संतनगर थाना सिधौली जनपद सीतापुर